

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रलम्बिस् के लयिः

प्रधानमंत्री, **PMAY-ग्रामीण**, **PMAY-शहरी**, गरीबी रेखा से नीचे (**Below Poverty Line- BPL**), **SC/ST**, जयि-टैगगि, वैधानकि शहर, झुगगी-झोपडी में रहने वाले लोग, करेडिट लकिड सबसडि, **CAG**, सवचछ भारत मशिन, मनरेगा, जल जीवन मशिन, उज्जवला योजना, **NABARD**, आर्थकि रूप से कमजोर वर्ग (**Economically Weaker Sections- EWS**), आवास बंधु

मेन्स के लयिः

PMAY की चुनौतयिँ, PMAY को मज़बूत करने के लयि आवश्यक कदम

स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में **प्रधानमंत्री** ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में **PMAY** के तहत तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के नरिमाण के लयि सहायता को मंजूरी दी ।

- तीन करोड़ मकानों में से दो करोड़ मकान **PMAY-ग्रामीण** के तहत तथा एक करोड़ मकान **PMAY-शहरी** के तहत बनाए जाएंगे ।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?


प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G):

- शुभारंभ:** वर्ष 2022 तक “सभी के लयि आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लयि, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना **इंदरि आवास योजना (IAY)** को 1 अपरैल 2016 से **केंद्र प्रायोजति योजना** के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में पुनर्रगठति कयि गय।
- शामलि मंत्रालय:** ग्रामीण वकिस मंत्रालय ।
- सथति:** राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों ने **लाभार्थयिँ को 2.85 करोड़ घर स्वीकृत कयि हैं** और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं ।
- उद्देश्य:** मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनयिदी सुवधिओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना ।
 - गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL)** जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के नरिमाण तथा मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान कराना ।
- लाभार्थी:** **अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति**, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मयिँ की वधिवाएँ या उनके नकिट संबंधी, पूर्व सैनकि और अर्धसैनकि बलों के सेवानवृत्त सदस्य, वकिलांग व्यकृति तथा **अल्पसंख्यक** ।
- लाभार्थयिँ का चयन:** तीन-चरणीय सत्यापन जैसे **सामाजकि-आर्थकि जाति जनगणना 2011**, **ग्राम सभा** और **जयि-टैगगि** के माध्यम से ।
- लागत साझाकरण:** मैदानी क्शेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं तथा **पूर्वोत्तर राज्यों**, दो हमिलयी राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्शेत्र के मामले में **90:10 के अनुपात** में व्यय साझा करते हैं ।
 - केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख सहति अन्य केंद्रशासति प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है ।**

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U):

- शुभारंभ:** 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्शेत्रों में सभी के लयि आवास उपलब्ध कराना है ।
- कार्यानवयनकर्त्ता:** आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
- सथति:** **PMAY (U) डैशबोर्ड** के अनुसार, **118.64 लाख मकान स्वीकृत कयि गए हैं**, जनिमें से **83.67 लाख पूरे हो चुके हैं** ।
- वशिषताएँ:**
 - पात्र शहरी गरीबों के लयि पक्का मकान सुनश्चिति करके **झुगगीवासयिँ** सहति शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर कराना ।

- मशिन में **संपूर्ण शहरी क्षेत्र** शामिल है, जिसमें सांघिकि कसबे, अधसूचिति योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, वशिष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिकि विकास प्राधिकरण या राज्य वधिन के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है, जसिं शहरी नयोजन एवं वनियमन का कार्य सौपा गया है।
- मशिन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामतिव प्रदान करके **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देता है।



//

■ योजना चार खंडों में करयान्वति की गई:

- नजिी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमिका उपयोग करके मौजूदा झुग्गी नवासिथिों का **यथासथान पुनरवास**।
- ऋण लकिड सबसिडी: **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS)**, नमिन आय समूह (Low Income Group- LIG) और मध्यम आय समूह (MIG-I और MIG-II) के लोग घर खरीदने या बनाने के लयि क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 6.5%, 4% तथा 3% की ब्याज सबसिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- साझेदारी में कफियती आवास (**Affordable Housing in Partnership- AHP**): AHP के अंतरगत, भारत सरकार द्वारा प्रर्त

ईडब्ल्यूएस आवास के लिये 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन:** व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन के लिये EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को प्रति EWS आवास 1.5 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

अन्य नई पहलें

- [कफायती करिये के आवास परसिर \(ARHC\)](#)
- [ANGIKAAR अभियान](#)
- [GHTC इंडिया](#)
- [PM-JANMAN](#)
- [वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती](#)

प्रधानमंत्री आवास योजना की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कार्यान्वयन में देरी:** सरकार द्वारा आरंभ में मार्च 2022 तक PMAY-G के तहत 29.5 मिलियन आवास इकाइयों और PMAY-U कार्यक्रमों के तहत 12 मिलियन आवास इकाइयों के निर्माण की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
 - हालाँकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में "सभी के लिये आवास" सुनिश्चित करने की समय-सीमा को **दिसंबर 2024** तक बढ़ा दिया।
- **अनुचित निष्पादन:** कुछ राज्य अपने योगदान में देरी करते हैं जिससे प्रगति पर भारी असर पड़ता है। वर्ष 2020 में नौ राज्यों ने लाभार्थियों को 2,915.21 करोड़ रुपए का भुगतान करने में देरी की थी।
- **वित्त तक पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिये 1.2/1.3 लाख की वितरित सब्सिडी राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिये परिवारों को इस कमी को पूरा करने के लिये वित्तीय संस्थानों से अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- **आवास की गुणवत्ता:** [CAG रिपोर्ट](#) में पाया गया कि पर्यवेक्षण के अभाव के कारण PMAY-G में आवास की गुणवत्ता खराब है, लाभार्थियों को निर्माण मानकों की जानकारी नहीं है तथा प्रदान किये गए प्रोटोटाइप की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं है।
- **अभिसरण:** पीएमएवाई योजना का उद्देश्य घर निर्माण के दौरान बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने हेतु [सर्वोच्च भारत मशिन](#), [मनरेगा \(MGNREGA\)](#), [जल जीवन मशिन](#) और [उज्ज्वला योजना](#) जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ समन्वय करना है, लेकिन रिपोर्टें योजना समन्वय में कमियों को उजागर करती हैं, जैसे कि राजस्थान में अधूरे शौचालयों के कारण '[खुले में शौच मुक्त](#)' स्थिति के झूठे दावे किये जाते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:** कई ग्रामीण नवासी **PMAY के बारे में अनभिज्ञ हैं या उनके पास आवश्यक दस्तावेजों का अभाव** है, अशिक्षा, खराब जागरूकता अभियान और जटिल दस्तावेज़ीकरण के कारण आवास सब्सिडी तथा ऋण तक उनकी पहुँच में बाधा आ रही है।

PMAY में अन्य नीति संबंधी मुद्दे

- **रसोईघर:** PMAY-G में रसोईघर की व्यवस्था है, लेकिन कई लोग इसके बजाय अतिरिक्त कमरे पसंद करते हैं, अक्सर बाहर खाना बनाते हैं और रसोईघर के स्थान को रहने के कमरे के रूप में उपयोग करते हैं, जो **आंशिक रूप से PMUY (LPG Gas) के सीमित उपयोग** की व्याख्या करता है।
- **खाना पकाने का ईंधन:** प्रयासों के बावजूद, कई PMAY-G परिवार **बाहर खाना पकाने** की आदत और रफिलि की लागत के कारण LPG सिलेंडर का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे PMAY और PMUY कार्यक्रम एकीकरण में बाधा आ रही है।
- **शौचालय का उपयोग:** PMAY-G घरों में निर्मित 10% शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि **हमसुदाय की आदतों** या खराब स्थापना के कारण है और इसकी जाँच की आवश्यकता है।
- **पेयजल:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (**National Rural Drinking Water Programme- NRDWP**) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक अधिकांश ग्रामीण घरों में पाइप से जल उपलब्ध कराना है, लेकिन PMAY-G घर मुख्य रूप से साझा जल बहिर्गम पर निर्भर हैं और उनमें उचित अपशिष्ट संग्रह, जल निकासी तथा स्ट्रीट लाइटिंग का अभाव है।
- **उधार का स्रोत:** अधिकांश PMAY-G लाभार्थी बैंक ऋण वकिलों के बारे में **जानकारी होने के बावजूद**, अतिरिक्त गृह निर्माण लागत को पूरा करने के लिये बैंकों के बजाय नज्दी स्रोतों से ऋण लेते हैं, जो बैंक ऋण पहुँच के साथ नीतितगत मुद्दे का संकेत देता है।

PMAY को मज़बूत करने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **समय पर धनराशि जारी करना:** कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है, वर्ष 2020 में 200 करोड़ रुपए का घाटा होने की सूचना है, जिससे राज्य के अंशदान को समय पर जारी करने और [मनरेगा](#) की तरह [प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण](#) की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- **औपचारिक ऋण सुविधा:** ऋण वितरण की प्रगति धीमी है, क्योंकि SBI जैसे प्रमुख बैंकों के पास उच्च जोखिम और कम लाभ के कारण **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically weaker Section- EWS) के लिये** विशिष्ट उत्पाद नहीं हैं, जिससे 'सभी के लिये आवास' हेतु स्थिर वित्तपोषण हेतु सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- **अधिक समावेशी:** समय की मांग है कि मौजूदा योजना की सीमाओं को स्वीकार किया जाए और भूमिहीन ग्रामीण आबादी की आवास समस्या को हल करने के लिये एकमात्र हस्तक्षेप तैयार किया जाए।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** सरकार को गुणवत्ता नगिरानी तंत्र को मज़बूत करने की सफ़ारिश की जाती है। [सामाजिक अंकेक्षण](#) जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है।
- **आवास बंधु:** आवास बंधु (PMAY-G स्थानीय प्रेरक) पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे स्थानों में प्रगतिको प्रभावी ढंग से गति दे रहे हैं। उचित प्रशिक्षण के साथ वे अभिसरण संभावनाओं को बढ़ाने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये। शहरी और ग्रामीण आवास पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. दीपक पारखि समति अन्य चीज़ों के साथ-साथ नमिनलखिति में से कसि एक उद्देश्य के लिये गठति की गई थी? (2009)

- कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन के लिये
- बुनयादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण के लिये उपाय सुझाने के लिये
- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के उत्पादन पर नीति तैयार करने के लिये
- केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय सुझाने के लिये

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से गैर-वित्तीय ऋण में सम्मलिति है/हैं? (2020)

- परिवारों का बकाया गृह ऋण
- क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि
- राजकोषीय बलि

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. भारत में नगरीय जीवन की गुणता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, 'स्मार्ट नगर कार्यक्रम' के उद्देश्यों और रणनीति बताइये। (2016)

प्रश्न. भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जनि विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, उनकी विविचना कीजिये। (2013)